

इलीशिबा छः माह से उम्मीद से थी जब अल्लाह ने जिबराईल फ़रिश्ते को एक कुँवारी के पास भेजा जो नासरत में रहती थी। नासरत गलील का एक शहर है और कुँवारी का नाम मरियम था। उस की मँगनी एक मर्द के साथ हो चुकी थी जो दाऊद बादशाह की नसल से था और जिसका नाम यूसुफ़ था।



लेकिन फ़रिश्ते ने अपनी बात जारी रखी और कहा,
"ऐ मरियम, मत डर, क्योंकि तुझ पर अल्लाह
का फ़ज़ल हुआ है। तू उम्मीद से होकर एक बेटे
को जन्म देगी। तुझे उसका नाम ईसा
(नजात देनेवाला) रखना है। वह अज़ीम
होगा और अल्लाह तआला का फ़रज़ंद
कहलाएगा। रब हमारा खुदा उसे
उसके बाप दाऊद के तख़्त पर बिठाएगा
और वह हमेशा तक इसराईल पर हुकूमत
करेगा। उस की सलतनत कभी ख़त्म न होगी।"



मरियम ने फ़रिश्ते से कहा, "यह क्योंकर हो सकता है? अभी तो मैं कुँवारी हूँ।" फ़रिश्ते ने जवाब दिया, "रूहुल-कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा, अल्लाह तआला की कुदरत का साया तुझ पर छा जाएगा। इसलिए यह बच्चा कुद्दूस होगा और अल्लाह का फ़रज़ंद कहलाएगा।"



उन दिनों में मरियम यहूदिया के पहाड़ी इलाके के एक शहर के लिए रवाना हुई। उसने जल्दी जल्दी सफ़र किया। वहाँ पहुँचकर वह ज़करियाह के घर में दाख़िल हुई और इलीशिबा को सलाम किया।

मरियम का यह सलाम सुनकर इलीशिबा का बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा और इलीशिबा खुद रूहुल-कुद्स से भर गई। उसने बुलंद आवाज़ से कहा, "तू तमाम औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरा बच्चा!"



ईसा मसीह की पैदाइश यों हुई : उस वक़्त उस की माँ मरियम की मँगनी यूसुफ़ के साथ हो चुकी थी कि वह रूहुल-कुद्स से हामिला पाई गई। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। उसका मंगेतर यूसुफ़ रास्तबाज़ था, वह अलानिया मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ख़ामोशी से यह रिश्ता तोड़ने का इरादा कर लिया।



वह इस बात पर अभी ग़ौरो-फ़िकर कर ही रहा था कि रब का फ़रिश्ता ख़ाब में उस पर ज़ाहिर हुआ और फ़रमाया, "यूसुफ़ बिन दाऊद, मरियम से शादी करके उसे अपने घर ले आने से मत डर, क्योंकि पैदा होनेवाला बच्चा रूहुल-कुद्स से है। उसके बेटा होगा और उसका नाम ईसा रखना, क्योंकि वह अपनी क्रौम को उसके गुनाहों से रिहाई देगा।"



जब यूसुफ़ जाग उठा तो उसने रब के फ़रिश्ते के फ़रमान के मुताबिक़ मरियम से शादी कर ली और उसे अपने घर ले गया। लेकिन जब तक उसके बेटा पैदा न हुआ वह मरियम से हमबिसतर न हुआ। और यूसुफ़ ने बच्चे का नाम ईसा रखा।



उन ऐयाम में रोम के शहनशाह औगुस्तुस ने फ़रमान जारी किया कि पूरी सलतनत की मर्दुमशुमारी की जाए। हर किसी को अपने वतनी शहर में जाना पड़ा ताकि वहाँ रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाए।



चुनाँचे यूसुफ़ गलील के शहर नासरत से खाना होकर यहूदिया के शहर बैत-लहम पहुँचा। वजह यह थी कि वह दाऊद बादशाह के घराने और नसल से था, और बैत-लहम दाऊद का शहर था। चुनाँचे वह अपने नाम को रजिस्टर में दर्ज करवाने के लिए



वहाँ गया। उस की मंगेतर मरियम भी साथ थी। उस वक़्त वह उम्मीद से थी।



जब वह वहाँ ठहरे हुए थे तो
बच्चे को जन्म देने का वक़्त
आ पहुँचा।



बेटा पैदा हुआ। यह मरियम का पहला बच्चा था। उसने उसे कपड़ों में लपेटकर एक चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उन्हें सराय में रहने की जगह नहीं मिली थी।



उस रात कुछ चरवाहे क़रीब के खुले मैदान में अपने रेवड़ों की
पहरादारी कर रहे थे। अचानक रब का एक फ़रिश्ता उन पर ज़ाहिर
हुआ, और उनके इर्दगिर्द रब का जलाल

चमका। यह देखकर वह
सख़्त डर गए।



लेकिन फ़रिश्ते ने उनसे कहा, "डरो मत! देखो मैं तुमको बड़ी खुशी की ख़बर देता हूँ जो तमाम लोगों के लिए होगी। आज ही दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए नजातदहिंदा पैदा हुआ है यानी मसीह खुदावंद।

और तुम उसे इस निशान से पहचान लोगे, तुम एक शीरख़ार बच्चे को कपड़ों में

लिपटा हुआ पाओगे। वह चरनी में पड़ा हुआ होगा।"



अचानक आसमानी लशकरों के बेशुमार फ़रिश्ते उस फ़रिश्ते के साथ ज़ाहिर हुए जो अल्लाह की हम्दो-सना करके कह रहे थे, "आसमान की बुलंदियों पर अल्लाह की



इज़ज़तो-जलाल,
ज़मीन पर उन
लोगों की सलामती
जो उसे मंज़ूर हैं।"



फ़रिश्ते उन्हें छोड़कर आसमान पर वापस चले गए तो चरवाहे आपस में कहने लगे, "आओ, हम बैत-लहम जाकर यह बात देखें जो हुई है और जो रब ने हम पर ज़ाहिर की है।"



वह भागकर बैत-लहम पहुँचे। वहाँ उन्हें मरियम और यूसुफ़ मिले और साथ ही छोटा बच्चा जो चरनी में पड़ा हुआ था। यह देखकर उन्होंने सब कुछ बयान किया जो उन्हें इस बच्चे के बारे में बताया गया था।



ईसा हेरोदेस बादशाह के ज़माने में सूबा यहूदिया के शहर बैत-लहम में पैदा हुआ। उन दिनों में कुछ मजूसी आलिम मशरिक् से आकर

यरूशलम पहुँच गए। उन्होंने पूछा,
"यहूदियों का वह बादशाह कहाँ है जो हाल ही में पैदा हुआ है? क्योंकि हमने मशरिक् में उसका सितारा देखा है और हम उसे सिजदा करने आए हैं।"



इस पर हेरोदेस ने ख़ुफ़िया तौर पर मजूसी आलिमों को बुलाकर तफ़सील से पूछा कि वह सितारा किस वक़्त दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बताया, "बैत-लहम जाएँ और तफ़सील से बच्चे का पता लगाएँ। जब आप उसे पा लें तो मुझे इत्तला दें ताकि मैं भी जाकर उसे सिजदा करूँ।"



बादशाह के इन अलफ़ाज़ के बाद वह चले गए। और देखो जो सितारा
उन्होंने मशरि़क़ में देखा था वह उनके आगे आगे चलता गया और
चलते चलते उस मक़ाम के ऊपर ठहर
गया जहाँ बच्चा था।



वह घर में दाखिल हुए और बच्चे को माँ के साथ देखकर उन्होंने अँधे
मुँह गिरकर उसे सिजदा किया। फिर अपने डिब्बे खोलकर उसे सोने,

लुबान और मुर के तोहफ़े पेश किए। जब

रवानगी का वक़्त आया तो वह यरूशलम
से होकर न गए बल्कि एक और रास्ते से
अपने मुल्क चले गए, क्योंकि उन्हें ख़ाब
में आगाह किया गया था
कि हेरोदेस के पास
वापस न जाओ।





उनके चले जाने के बाद रब का फ़रिश्ता ख़ाब में यूसुफ़ पर ज़ाहिर हुआ और कहा, "उठ, बच्चे को उस की माँ समेत लेकर मिसर को हिजरत कर जा। जब तक मैं तुझे इत्तला न दूँ वहीं ठहरा रह, क्योंकि हेरोदेस बच्चे को तलाश करेगा ताकि उसे क़त्ल करे।"





यूसुफ़ उठा और उसी रात बच्चे को उस
की माँ समेत लेकर मिसर के लिए
रवाना हुआ। वहाँ वह हेरोदेस के
इंतक़ाल तक रहा। यों वह बात पूरी
हुई जो रब ने नबी की मारिफ़त
फ़रमाई थी, "मैंने अपने
फ़रज़ंद को मिसर से बुलाया।"



जब हेरोदेस को मालूम हुआ कि मजूसी
आलिमों ने मुझे फ़रेब दिया है तो उसे
बड़ा तैश आया।



उसने अपने फ़ौजियों को बैत-लहम भेजकर उन्हें हुकम दिया कि बैत-लहम और इर्दगिर्द के इलाक़े के उन तमाम लड़कों को क़त्ल करें जिनकी उम्र दो साल तक हो। क्योंकि उसने मजूसियों से बच्चे की उम्र के बारे में यह मालूम कर लिया था।



जब हेरोदेस इंतकाल कर गया तो
रब का फ़रिश्ता ख़ाब में यूसुफ़ पर
ज़ाहिर हुआ जो अभी मिसर ही में
था। फ़रिश्ते ने उसे बताया, "उठ,
बच्चे को उस की माँ समेत लेकर
मुल्के-इसराईल वापस चला
जा, क्योंकि जो बच्चे को जान
से मारने के दरपै थे वह मर
गए हैं।"



लेकिन जब उसने सुना कि
अरखिलाउस अपने बाप
हेरोदेस की जगह यहूदिया में
तख़्तनशीन हो गया है तो वह
वहाँ जाने से डर
गया।



फिर ख़ाब में हिदायत पाकर
वह गलील के इलाक़े के लिए रवाना हुआ।
वहाँ वह एक शहर में जा बसा जिसका नाम नासरत था।
यों नबियों की बात पूरी हुई कि 'वह नासरी कहलाएगा।'



क्योंकि अल्लाह ने दुनिया से इतनी मुहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते फ़रज़ंद को बख़्श दिया, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि अबदी ज़िंदगी पाए।



रोमियों 3:23 सबने गुनाह किया, सब अल्लाह के उस जलाल से महरूम हैं जिसका वह तक्राज़ा करता है,

रोमियों 6:23 क्योंकि गुनाह का अज़्र मौत है जबकि अल्लाह हमारे खुदावंद मसीह ईसा के वसीले से हमें अबदी जिंदगी की मुफ़्त नेमत अता करता है।

इबरानियों 9:27 एक बार मरना और अल्लाह की अदालत में हाज़िर होना हर इनसान के लिए मुकर्रर है।

इफ़िसियों 2:8,9 क्योंकि यह उसका फ़ज़ल ही है कि आपको ईमान लाने पर नजात मिली है। यह आपकी तरफ़ से नहीं है बल्कि अल्लाह की बख़िश है। और यह नजात हमें अपने किसी काम के नतीजे में नहीं मिली, इसलिए कोई अपने आप पर फ़ख़र नहीं कर सकता।



रोमियों 10:9,10 यानी यह कि अगर तू अपने मुँह से इकरार करे कि ईसा खुदावंद है और दिल से ईमान लाए कि अल्लाह ने उसे मुरदों में से ज़िंदा कर दिया तो तुझे नजात मिलेगी। क्योंकि जब हम दिल से ईमान लाते हैं तो अल्लाह हमें रास्तबाज़ करार देता है, और जब हम अपने मुँह से इकरार करते हैं तो हमें नजात मिलती है।

यूहन्ना 3:16,17 क्योंकि अल्लाह ने दुनिया से इतनी मुहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते फ़रज़ंद को बख़्श दिया, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि अबदी ज़िंदगी पाए। क्योंकि अल्लाह ने अपने फ़रज़ंद को इसलिए दुनिया में नहीं भेजा कि वह दुनिया को मुजरिम ठहराए बल्कि इसलिए कि वह उसे नजात दे।

1 यूहन्ना 5:11-13 और गवाही यह है, अल्लाह ने हमें अबदी ज़िंदगी अता की है, और यह ज़िंदगी उसके फ़रज़ंद में है। जिसके पास फ़रज़ंद है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास अल्लाह का फ़रज़ंद नहीं है उसके पास ज़िंदगी भी नहीं है। मैं आपको जो अल्लाह के फ़रज़ंद के नाम पर ईमान रखते हैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप जान लें कि आपको अबदी ज़िंदगी हासिल है।



मत्ती 1-2; लूका 1-2

Storyline by: Edward D. Hughes

Illustrated by: M. Maillot
and Alastair Paterson

Adapted by: E. Frischbutter; Sarah S.

Urdu Geo Hindi Bible (urd) © 2019 Urdu Geo Version. CC-
BY-ND-NC

<https://www.bible.com/bible/481/GEN.1.DGV>

©2026 Bible for Children, Inc.

www.M1914.org

www.bibleforchildren.org

